



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2017, शनिवार/ चैत्र 19—चैत्र 25, 1939

No. 11] NEW DELHI, APRIL 9—APRIL 15, 2017, SATURDAY/ CHAITRA 19—CHAITRA 25, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

[गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)]

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

का.नि.आ. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना), तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना) में कनिष्ठ इंजीनियर (नौ सेना गुणता आश्वासन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना), कनिष्ठ इंजीनियर (नौसेना गुणता आश्वासन), भर्ती नियम 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और उक्त पद से संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ इंजीनियर (नौसेना गुणता आश्वासन)	96*(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 6 (35400 - 1,12,400 रु.)	लागू नहीं होता ।	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत या इलैक्ट्रॉनिक या इलैक्ट्रॉनिक	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य

<p>और दूरसंचार इंजीनियरी या सामुद्रिक या यांत्रिक या धातुकर्म या रसायन इंजीनियरी में डिग्री ; या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत या इलैक्ट्रॉनिक या इलैक्ट्रॉनिक और दूरसंचार इंजीनियरी या सामुद्रिक या यांत्रिक या धातुकर्म या रसायन इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा के साथ संबंधित क्षेत्र (क्षेत्रों) में दो वर्ष का अनुभव</p> <p>(टिप्पण - प्रत्येक भर्ती के समय संबंधित विद्याशाखा विहित की जाएगी)</p> <p>बांछनीय :</p> <p>किसी कम्प्यूटर आधारित प्रोग्राम जैसे माइक्रो साफ्ट वर्ड, एक्सल में छह मास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण ।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p>			<p>परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)</p>
--	--	--	---

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
(11)	(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता ।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. अपर महानिदेशक, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) — अध्यक्ष</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

2. निदेशक, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना)	— सदस्य	
3. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक गुणता आश्वासन निदेशालय (युद्धपोत परियोजना)	— सदस्य	
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक (कार्मिक), गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)	- सदस्य	

[फा. सं. 2343/आर आर/जेई (एन क्यू ए)/डी क्यू ए (एन)/278/ डी क्यू ए /2017]

किरण माला कुजूर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

[DIRECTORATE OF QUALITY ASSURANCE (NAVAL)]

New Delhi, the 30th March, 2017

S.R.O. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Technical Assistant Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Engineer (Naval Quality Assurance) in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Junior Engineer(Naval Quality Assurance) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Engineer (Naval Quality Assurance)	96* (2017) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State. Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Degree in Engineering in Electrical or Electronics or Electronics and Communication or Marine or Mechanical or Metallurgical or Chemical Engineering from a recognised University; or Three years Diploma in Engineering in Electrical or Electronics or Electronics and Communication or Marine or Mechanical or Metallurgical or Chemical Engineering from a recognized University or Institution plus two years experience in the respective field(s). (Note : The relevant discipline shall be specified at the time of each recruitment.) Desirable: Passed six months training course in any computer based programme, micro soft word, excel.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment, Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column(7). Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application).

<p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group “B” Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Additional Director General of Quality Assurance (Naval) —Chairman;</p> <p>(2) Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) —Member;</p> <p>(3) Joint Director/Dy Director, Directorate of Quality Assurance Warship Project) —Member;</p> <p>(4) Joint Director/Dy Director(Personnel), Directorate of Quality Assurance (Naval) —Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 2343/RR/JE(NQA)/DQA(N)/278/DQA/2017]

KIRAN MALA KUJUR, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

का.नि.आ. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती नियम, 2013 में,-

(i) नियम 2 में, शब्द “वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान” और “वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान” जहां भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) अनुसूची में :-

(क) भंडार सहायक 'ख' पद के लिए,-

(i) स्तम्भ (4) में,-

(क) शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(ख) शब्दों, अक्षरों और अंकों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. एवं ग्रेड वेतन 2400 रु. के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“स्तर-4 (25500-81100 रु.)”;

(ii) स्तम्भ (10) की मद (ii) में शब्दों, अंकों और अक्षरों में “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. एवं ग्रेड वेतन 1900 रु.” के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों में “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)” रखा जाएगा।

(iii) स्तम्भ (11) में उपशीर्षक पदोन्नति के अंतर्गत शब्दों, अंकों और अक्षरों में “वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. एवं ग्रेड वेतन 1900 रु.” के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों में “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)” रखा जाएगा;

(ख) भंडार सहायक 'क' पद के लिए:-

(i) स्तम्भ (4) में शब्दों, अंकों और अक्षरों में “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. एवं ग्रेड वेतन रु. 1900” के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“स्तर-2 (19900-63200)”

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/भंडार सहायक 'क' तथा 'ख'/आरआरएस/सी/पी/02/542 /डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवसर सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में का.नि.आ. 26, तारीख 23 अप्रैल, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd March, 2017

S.R.O. 24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B') posts, Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B') posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B') posts, Recruitment Rules, 2013,-

(i) in rule 2, for the words "pay band and grade pay/pay scale" and "pay band and grade pay/scale of pay", the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(ii) in the Schedule,-

(a) against the post of Store Assistant 'B',-

(i) in column (4),-

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the Pay Matrix";

(B) for the words, letters and figures Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade pay of Rs. 2400, the following shall be substituted, namely:-

"Level-4 (Rs.25500-81100)";

(ii) in column (10), in item (ii), for the words, figures and letters "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900", the words, figures and letters "Level-2 (Rs.19900-63200) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(iii) in column (11), under the sub heading Promotion, for the words, figures and letters "scale of pay of Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 in PB-1", the words, figures and letters "level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(b) against the post of Store Assistant 'A',-

(i) in column (4), for the words, figures and letters "Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-2 (Rs.19900-63200)"

[F. No. DHRD/76257/Store Assistant 'A' & 'B'/RRs/C/P/02/542/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, vide notification number S.R.O. 26, dated the 23rd April 2013.